



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 640]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 24, 2001/पौष 3, 1923

No. 640]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 24, 2001/PAUSA 3, 1923

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2001

सा.का.नि. 921(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और डाक व तार विभाग (आशुलिपिक ग्रेड-1) भर्ती नियमावली, 1983 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया था अथवा करने से पहले लोप कर दिया गया, डाक विभाग, संचार मंत्रालय में आशुलिपिक ग्रेड-1 के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :—(1) इन नियमों का नाम डाक विभाग (आशुलिपिक ग्रेड-1) भर्ती नियमावली, 2001 होगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. **पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान** :—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतनमान वहीं होंगे जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य योग्यताएं** :—उक्त पद के लिए भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं तथा उनसे संबद्ध अन्य मामले वहीं होंगे जो उक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

4. **अनर्हता** :—वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, अथवा

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति :—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	योग्यता या चयन सह-ज्येष्ठता या अचयनित पद के आधार पर चयन	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
स्टेनोग्राफर ग्रेड-I	148*(2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिबीय	5500-175-9000 रु.	चयन सह-ज्येष्ठता	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11	12

पदोन्नति द्वारा

पदोन्नति : आशुलिपिक ग्रेड-II जिन्होंने ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो।
टिप्पणी 1 : एकबारगी उपाय के रूप में, आशुलिपिकों के संघर्ष की पुनर्संरचना के परिणामस्वरूप खाली होने वाले आशुलिपिक ग्रेड-I के पद, आशुलिपिक ग्रेड III के ग्रेड में 10 वर्षों की संयुक्त नियमित सेवा (चयन ग्रेड में प्रदत्त सेवा सहित) करने वाले आशुलिपिक ग्रेड-II तथा आशुलिपिक ग्रेड-II के ग्रेड में न्यूनतम एक वर्ष की नियमित सेवा करने वाले आशुलिपिक ग्रेड-II की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे।

टिप्पणी 2 : जिन मामलों में उन कनिष्ठों की पदोन्नति हेतु विचार किया जा रहा है जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, उन मामलों में उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा की आधी से अधिक अवधि या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने अपने उन कनिष्ठों के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिबीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो इसका संघटन क्या है? वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने से पहले संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने की जरूरत है

13

14

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति :—

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

1. डाक सर्किल के प्रमुख—अध्यक्ष

2. निदेशक डाक सेवाएं—सदस्य

3. डाक पक्ष के एक समूह 'क' अधिकारी—सदस्य

[सं. फा. 49-2/99-एस.पी.बी.-I]

ए.के. दास, निदेशक (स्टाफ)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2001

G.S.R. 921(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Posts and Telegraphs Department (Stenographer Grade-I) Recruitment Rules, 1983, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade-I in the Department of Posts, Ministry of Communications, namely :—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called Department of Posts (Stenographer Grade-I) Recruitment Rules, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, their classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Scale of Pay	Whether selection by merit or selection-cum-seniority or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Stenographer Grade-I	148*(2001) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, Ministerial	Rs. 5500-175-9000	Selection-Cum-Seniority	Not applicable
Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972		Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
7	8	9	10	11	
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years	Promotion	
In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made		If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition		Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment	
12	13	14			
Promotion : Stenographer Grade-II with 3 years regular service in the grade. Note 1 : As one time measure, vacancies of Stenographer Grade-I arising out of the restructuring of the cadre of Stenographers shall be filled up by promotion of Stenographer Grade-II with 10 years combined regular service in the grade of Stenographer Grade-III (including service rendered in the selection grade) and Stenographer Grade-II with minimum one year's regular service in the grade of Stenographer Grade-II. Note 2 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'B' Departmental Promotion Committee 1. Head of Postal Circle —Chairman 2. Director Postal Services —Member 3. One Group 'A' Officer of Postal side —Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.			

[No. F. 49-2/99-SPB-I]

A. K. DASH, Director (Staff)